

RI(O AUTO INDUSTRIES LIMITED

REGD. & CORP. OFFICE: 38 K.M. STONE, DELHI-JAIPUR HIGHWAY, GURUGRAM -122001, HARYANA (INDIA) EMAIL: rico@ricoauto.in WEBSITE: www.ricoauto.in TEL.: +91 124 2824000 FAX: +91 124 2824200 CIN: L34300HR1983PLC023187

RAIL:SEC:2017

August 08, 2017

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai - 400001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

5th Floor, Plot No.C/1, G Block

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E)

Mumbai - 400051

Scrip Code - 520008

Scrip Code - RICOAUTO

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copies of Unaudited Financial Results for the first quarter ended 30th June, 2017 as published in the following Newspapers:

i) Business Standard (English Newspaper), New Delhi

05/08/2017

ii) Veer Arjun (Hindi Newspaper), New Delhi

05/08/2017

Thanking you,

Yours faithfully, for Rico Auto Industries Limited

B.M. Jhamb

Company Secretary

Justian

FCS: 2446

Encl: As above



Made in India with Pride

RICO AUTO INDUSTRIES LIM

Regd. & Corp. Office: 38 KM Stone, Delhi-Jaipur Highway, Gurugram -122 001, Haryana (INDIA) Tel: 0124 2824000, Fax: 0124 2824200, email: cs@ricoauto.in Website: www.ricoauto.in, CIN: L34300HR1983PLC023187

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2017

(Rs. in Crores)

		STANDALONE Quarter Ended		CONSOLIDATED Quarter Ended	
SI.					
No.	PARTICULARS	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2016
		Unaudited		Unaudited	
1.	Revenue from Operations (Gross)	262.86	263.99	293.82	280.88
2.	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	15.64	19.68	18.78	20.59
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)	15.21	19.30	17.95	20.11
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional Items)	11.33	14.99	14.05	15.83
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other		Tiylingi Abrilli		A
	Comprehensive Income (after tax)]	10.83	15.01	13.36	15.81
6.	Equity Share Capital of Re.1/- each	13.53	13.53	13.53	13.53
7.	Earning Per Share (before and after Extraordinary Items, not annualised)		And the second s		
,	- Basic (Rs.)	0.84	1.11	1.04	1.17
	- Diluted (Rs.)	0.84	1.11	1.04	1.17

NOTES:

- 1. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter ended 30th June, 2017, filed with the Stock Exchanges on 4th August, 2017 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on the Company's website at www.ricoauto.in.
- 2. The Company adopted Indian Accounting Standards (IndAS) from 1st April, 2017 as per road map released by the Ministry of Corporate Affairs (MCA).

Reconciliation of Net Profit after tax as previously reported under Indian GAAP and IndAS for the quarter ended 30th June, 2016 are as follows: (Rs. in Crores)

SI.	PARTICULARS	STANDALONE	CONSOLIDATED	
No.		30.06.2016	30.06.2016	
1.	Net Profit as per previous Indian GAAP	14.07	15.58	
2.	Measurement of Current Investment at Mark to Market	0.06	0.14	
3.	Effective Interest Rate Adjustments	1.33	(0.05)	
4.	Adjustment for recording Actuarial (Gain)/Losses in			
	Other Comprehensive Income	(0.03)	0.03	
5.	Adjustment of Prior Period Items ,	0.05	0.06	
6.	Others*	0.00	0.00	
7.	Tax impact on Stock Reserve	() - · - ·	0.11	
8.	Deferred Tax impact of above Adjustments	(0.49)	(0.04)	
9.	Net Profit as per IndAS	_14.99	15.83	
10.	Other Comprehensive Income (Net of Tax)	0.02	(0.02)	
11.	Total Comprehensive Income	15.01	15.81	

*Amounts have been rounded off to zero

For RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED

Sd/-

Arvind Kapur

Chairman, CEO & Managing Director DIN: 00096308

Place: New Delhi

Date: 4th August, 2017 E-mail ID for redressal of investor complaint: cs@ricoauto.in

नियमों को हतालों देते हुए एक पत्र बिदार राजद के अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को भेज दिया गया है जिन्होंने राबड़ी देवी को राज्य में ऊपरी सदन का नेता नियुक्त करने का आग्रह किया था। बीतीश कुमार के नेतृस्व बाले जहाजठबंधन की सरकार में 75 सदस्यीय विधान परिषद में सुशील बुमार मोदी विपक्ष के नेता थे राबड़ी देवी की 2012 में दूसरी बार विधान परिषद का सदस्य चुना गया था और उनका कार्यकाल 2018 में समाप्त

प बंगाल विस के मानसून एउ में शामिल नहीं होंगे जीजेएम के विधायक

कोलकाता, (भाषा)। गौरखा अनुमानत मोर्चा के सभी तीन विधायकों ने राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में लामिल नहीं होने का फैसला लिया है। पंत्र आज से शुरू हुआ है। उन्होंने यह फैसला दार्जीलिंग पहाडियों में जारी अनिश्चितकालीन बंद के कारण लिया है। दार्जीलग निवंचिन क्षेत्र से जीजेएम विधायक अमर सिंह राय ने कहा. पहाडियों में बीते 51 दिनों से अनिश्चितकालीन बद चल रहा है, इसलिए हमने विधानसभा के जारी सत्र ने शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। 'राय ने कहा कि उनके इस कदम की मतलब विस सत्र का बहिष्कार करना नहीं है। और विधायक अपनी अनुपरिथति का कारण अध्यक्ष को बता देंगे। अमर सिंह के अलावा दो अन्य जीजेएम विधायक है रोहित शर्मा और सरिता राय।

बीजेपी विधान पार्षद का नीतीश को सुझाव, सरकारी

स्कल में पढ़ें 'बाबुओं' के बच्चे पटना (एजेंसी)। भाजपा विधान गर्गद नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कमार से आग्रह किया है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समाज को साथः लेकर चले। ऐसा कानर बनाये कि सरकारी स्कलों में जनप्रतिनिधि अधिकारी, पदाधिकारियों के साथ-साथ वैसे सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़े जो सरकारी खजाने से वेतन लेते है।भाजपा विधान पार्षद नवल किशोर बाह्ब ने शिक्षा में मुधार लाने के लिए सरकार की ओर से उठाये गये कटम की सराहना करते हुए कुछ सुझाव दिये हैं। नवल किशोर यादव का कहना है कि सरकार सिर्फ 50 साल के ऊपर के अयोज्य शिक्षक को क्यों हटाना चाहती है। अगर 25 साल का गिशक भी अयोग्य है तो उसे भी हाथा जाए।

राज सारा का स्वान्द्रत काया गया: रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने आज बताया कि जरूरत के समय वायुसेना के विमानों के रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ राजमार्गों को चिन्हित किया गुसा है और इस संदर्भ में एक व्यापक योजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास भेजी गई है। भामरे ने लोकसभा में एक इसन के लिखित

में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेंघवाल ने कहा, कंपनी अधिनयम में शेल ..फर्जी कंपनी शब्दा को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने कंपनी ऑधिनयम, 2013 की धारा 248 के अधीन विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद 12

सकता है। उद्योन कहा कि दो स्पो जीएट ने इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जैसले किए और नई व्यवस्था में जनबंदिही को प्रमुखता दो गई है। मंत्री ने सदस्य की इस बात पर सहमति जताई कि कर चोरी पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जनबंदेही तय करनी होगी।

Made in India with Pride

RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. & Corp. Office: 38 KM Stone, Delhi-Jaipur Highway, Gurugram -122 001, Haryana (INDIA)

Tel: 0124 2824000, Fax: 0124 2824200, email: cs@ricoauto.in

Website: www.ricoauto.in, CIN: L34300HR1983PLC023187

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2017

(Rs. in Crore

	(RS. In Crores)				
	PARTICULARS	STANDALONE Quarter Ended		CONSOLIDATED Quarter Ended	
SI.					
No.		30.06,2017	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2016
		Unaudited		Unaudited	
1.	Revenue from Operations (Gross)	262.86	263.99	293.82	280.88
2.	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	15.64	19.68	18.78	20.59
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)	15.21	19.30	17.95	20.11
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional Items)	11,33	14.99	14,05	.15.83
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising * Profit for the period (after tax) and Other	and the second			-
	Comprehensive Income (after tax)]	10.83	15.01	13,36	15.81
6.	Equity Share Capital of Re.1/- each	13.53	13.53	13.53	13.53
7.	Earning Per Share (before and after Extraordinary Items, not annualised)	F	75.17.002070	N. Paragonal	1228710000000
	- Basic (Rs.) - Diluted (Rs.)	0.84 0.84	1.11	1.04 1.04	1.17 1.17

NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter ended 30th June, 2017, filed with the Stock Exchanges on 4th August, 2017 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on the Company's website at www.ricoauto.in.
- The Company adopted Indian Accounting Standards (IndAS) from 1st April, 2017 as per road map released by the Ministry of Corporate Affairs (MCA).

Reconciliation of Net Profit after tax as previously reported under Indian GAAP and IndAS for the quarter ended 30th June, 2016 are as follows:

(Rs. in Crores)

SI.	PARTICULARS ·	STANDALONE	CONSOLIDATED	
No.		30.06.2016	30,06,2016	
1,	Net Profit as per previous Indian GAAP	14.07	15.58	
2.	Measurement of Current Investment at Mark to Market	0.06	0.14	
3.	Effective Interest Rate Adjustments	1.33	(0.05)	
4.	Adjustment for recording Actuarial (Gain)/Losses in	222 Per 15 (1986)	10000	
	Other Comprehensive Income	(0.03)	0.03	
5.	Adjustment of Prior Period Items	0.05	0.06	
6.	Others*	0.00	0.00	
7.	Tax impact on Stock Reserve	100000000000000000000000000000000000000	0.11	
8.	Deferred Tax impact of above Adjustments	(0.49)	(0.04)	
9.	Net Profit as per IndAS	14.99	15.83	
10.	Other Comprehensive Income (Net of Tax)	0.02	(0.02)	
11.	Total Comprehensive Income	15.01	15.81	

*Amounts have been rounded off to zero

For RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED

Sd/-Arvind Kapur

Place: New Delhi

Date: 4th August, 2017

E-mail ID for redress alsof investor complaint: cs@ricoauto.in

Chairman, CEO & Managing Director DIN: 00096308

2